

दुःखहरण-विनती  
Du:Khaharaṇa-Vinatī

कविश्री वृन्दावन दास  
Kaviśrī Vṛndāvana Dāsa

(शैर की लय में तथा और रागिनियों में भी बनती है।)

श्रीपति जिनवर करुणायतनं, दुःखहरन तुम्हारा बना है ।  
मत मेरी बार अबार करो, मोहि देहु विमल कल्याना है ॥ टेक ॥  
त्रैकालिक वस्तु प्रत्यक्ष लखो, तुमसों कछु बात न छाना है ।  
मेरे उर आरत जो वरते, निहचे सब सो तुम जाना है ।  
अवलोक विथा तुम मौन गहो, नहिं मेरा कहीं ठिकाना है ।  
हो राजिव-लोचन सोच-विमोचन, में तुमसों हित ठाना है ॥१॥

(śaira kī laya mēm tathā aura rāginiyōm mēm bhī banatī hai.)

Śrīpati jinavara karuṇāyatanam, du:Khaharana tumhārā bānā hai |  
Mata mērī bāra abāra karō, mōhi dēhu vimala kalyānā hai..Ṭēka ||  
Traikālika vastu pratyakṣa lakhō, tumasōm kachu bāta na chānā hai |  
Mērē ura ārata jō varate, nihacem saba sō tuma jānā hai |  
Avalōka viṭhā tuma mauna gahō, nahim mērā kahim ṭhikānā hai |  
Hō rājiva-lōcana sōca-vimōcana, maim tumasōm hita ṭhānā hai ||1||

सब ग्रंथन में निरग्रंथनि ने, निरधार यही गणधार कही ।  
जिननायक ही सब लायक हैं, सुखदायक छायाक-ज्ञान-मही ॥  
यह बात हमारे कान परी, तब आन तुम्हारी-शरन गही ।  
क्यों मेरी बार विलंब करो, जिननाथ कहो वह बात सही ॥२॥

Saba granthana mēm niragranthani nē, niradhāra yahī gaṇadhāra kahī |  
Jinanāyaka hī saba lāyaka hairm, sukhadāyaka chāyaka-jñāna-mahī ||  
Yaha bāta hamārē kāna parī, taba āna tumhārī-śarana gahī |  
Kyōm mērī bāra vilamba karō, jinanātha kahō vaha bāta sahī ||2||

काहू को भोग-मनोग करो, काहू को स्वर्ग-विमाना है |  
काहू को नाग-नरेशपती, काहू को ऋद्धि-निधाना है |  
अब मो पर क्यों न कृपा करते, यह क्या अंधेर जमाना है |  
इन्साफ करो मत देर करो, सुखवृंद भरो भगवाना है ||३||

Kāhū kō bhōga-manōga karō, kāhū kō svarga-vimānā hai |  
Kāhū kō nāga-narēśapatī, kāhū kō ṛd'dhi-nidhānā hai |  
Aba mō para kyōm na kṛpā karatē, yaha kyā andhēra jamānā hai |  
Insāpha karō mata dēra karō, sukhavṛnda bharō bhagavānā hai ||3||

खल-कर्म मुझे हैरान किया, तब तुम को आन पुकारा है |  
तुम ही समरथ न न्याय करो, तब बंदे का क्या चारा है |  
खलघालक पालक-बालक का, नृप नीति यही जगसारा है |  
तुम नीति-निपुण त्रैलोकपती, तुमही लगी दौर हमारा है ||४||

Khala-karma mujhē hairāna kiyā, taba tuma kō āna pukārā hai |  
Tuma hī samaratha na n'yāya karō, taba bandē kā kyā cārā hai |  
Khalaghālaka pālaka-bālaka kā, nṛpa nīti yahī jagasārā hai |  
Tuma nīti-nipuṇa trailōkapatī, tumahī lagi daura hamārā hai ||4||

जबसे तुमसे पहिचान भई, तबसे तुमही को माना है |  
तुमरे ही शासन का स्वामी, हमको सच्चा सरधाना है |  
जिनको तुमरी शरनागत है, तिन सों जमराज डराना है |  
यह सुजस तुम्हारे साँचे का, सब गावत वेद-पुराना है ||५||

Jabasē tumasē pahicāna bhar'i, tabasē tumahī kō mānā hai |  
Tumarē hī śāsana kā svāmī, hamakō saccā saradhānā hai |  
Jinakō tumarī śaranāgata hai, tina sōm jamarāja ḍarānā hai |  
Yaha sujasa tumhārē sāncē kā, saba gāvata vēda-purānā hai ||5||

जिसने तुमसे दिल-दर्द कहा, तिसका तुमने दुःख हाना है |  
अघ छोटा-मोटा नाशि तुरत, सुख दिया तिन्हें मनमाना है |  
पावक सों शीतल-नीर किया, औ' चीर बढ़ा असमाना है |  
भोजन था जिसके पास नहीं, सो किया कुबेर-समाना है ||६||

Jisanē tumasē dila-darda kahā, tisakā tumanē du:Kha hānā hai |  
Agha chōṭā-mōṭā nāśi turata, sukha diyā tinhēm manamānā hai |  
Pāvaka sōm śītala-nīra kiyā, au' cīra baṛhā asamānā hai |  
Bhōjana thā jisakē pāsa nahīm, sō kiyā kubēra-samānā hai ||6||

चिंतामणि-पारस-कल्पतरु, सुखदायक ये सरधाना है |  
तव दासन के सब दास यही, हमरे मन में ठहराना है |  
तुव भक्तन को सुर-इन्द्र-पदी, फिर चक्रपती पद पाना है |  
क्या बात कहूँ विस्तार बड़ी, वे पावें मुक्ति-ठिकाना है ||७||

Cintāmaṇi-pārasa-kalpataru, sukhadāyaka yē saradhānā hai |  
Tava dāsana kē saba dāsa yahī, hamarē mana mēm ṭhaharānā hai |  
Tuva bhaktana kō sura-indra-padī, phira cakrapatī pada pānā hai |  
Kyā bāta kahaurṁ vistāra baṛī, vē pāverṁ mukti-ṭhikānā hai ||7||

गति-चार चुरासी-लाख-विषे, चिन्मूरत मेरा भटका है |  
हे दीनबंधु करुणानिधान, अबलों न मिटा वह खटका है |  
जब जोग मिला शिवसाधन का, तब विघन कर्म ने हटका है |  
तुम विघन हमारे दूर करो, सुख देहु निराकुल घटका है ||८||

Gati-cāra curāsī-lākha-viṣe, cinmūrata mērā bhaṭakā hai |  
Hē dīnabandhu karuṇānidhāna, abalōṁ na miṭā vaha khaṭakā hai |  
Jaba jōga milā śivasādhana kā, taba vighana karma nē haṭakā hai |  
Tuma vighana hamārē dūra karō, sukha dēhu nirākula ghaṭakā hai ||8||

गज-ग्राह-ग्रसित उद्धार किया, ज्यों अंजन-तस्कर तारा है |  
ज्यों सागर गोपद-रूप किया, मैना का संकट टारा है |  
ज्यों सूली तें सिंहासन औ', बेड़ी को काट बिडारा है |  
त्योँ मेरा संकट दूर करो, प्रभु मोकूँ आस तुम्हारा है ||९||

Gaja-grāha-grasita ud'dhāra kiyā, jyōṁ añjana-taskara tārā hai |  
Jyōṁ sāgara gōpada-rūpa kiyā, mainā kā saṅkaṭa ṭārā hai |  
Jyōṁ sūlī teṁ sinhāsana au', bēṛī kō kāṭa biḍārā hai |  
Tyōṁ mērā saṅkaṭa dūra karō, prabhu mōkūṁ āsa tumhārā hai ||9||

ज्यों फाटक टेकत पाँय खुला, औ' साँप सुमन कर डारा है |  
ज्यों खड्ग कुसुम का माल किया, बालक का जहर उतारा है |  
ज्यों सेठ-विपत चकचूरि पूर, घर लक्ष्मी-सुख विस्तारा है |  
त्योँ मेरा संकट दूर करो प्रभु, मोकूँ आस तुम्हारा है ||१०||

Jyōṁ phāṭaka ṭekata pāṁya khulā, au' sāṁpa sumana kara ḍārā hai |  
Jyōṁ khaḍga kusuma kā māla kiyā, bālaka kā jahara utārā hai |  
Jyōṁ seṭha-vipata cakacūrī pūra, ghara lakṣmī-sukha vistārā hai |  
Tyōṁ mērā saṅkaṭa dūra karō prabhu, mōkūṁ āsa tumhārā hai ||10||

यद्यपि तुमको रागादि नहीं, यह सत्य-सर्वथा जाना है ।  
चिनमूर्ति आप अनंतगुनी, नित शुद्धदशा शिवथाना है ।  
तद्यपि भक्तन की पीर हरो, सुख देत तिन्हें जु सुहाना है ।  
यह शक्ति-अचिंत तुम्हारी का, क्या पावे पार सयाना है ॥११॥

Yadyapi tumakō rāgādi nahīm, yaha satya-sarvathā jānā hai ।  
Cinamūrati āpa anantagunī, nita śud'dhadasā śivathānā hai ।  
Tadyapi bhaktana kī pīra harō, sukha dēta tinhēm ju suhānā hai ।  
Yaha śakti-acinta tumhārī kā, kyā pāvē pāra sayānā hai ॥11॥

दुःख-खंडन श्री सुख-मंडन का, तुमरा प्रन परम-प्रमाना है ।  
वरदान दया-जस-कीरत का, तिहुँलोक धुजा फहराना है ।  
कमलाधरजी! कमलाकरजी! करिये कमला अमलाना है ।  
अव मेरि विथा अवलोकि रमापति, रंच न बार लगाना है ॥१२॥

Du:Kha-khaṇḍana śrī sukha-maṇḍana kā, tumarā prana parama-pramānā hai ।  
Varadāna dayā-jasa-kīrata kā, tihūṅlōka dhujā phaharānā hai ।  
Kamalādharajī! Kamalākarajī! Kariyē kamalā amalānā hai ।  
Ava mēri vithā avalōki ramāpati, rañca na bāra lagānā hai ॥12॥

हो दीनानाथ अनाथहितू, जन दीन-अनाथ पुकारी है ।  
उदयागत-कर्मविपाक हलाहल, मोह-विथा विस्तारी है ॥  
ज्यों आप और भवि-जीवन की, तत्काल विथा निरवारी है ।  
त्यो 'वृंदावन' यह अर्ज करे, प्रभु आज हमारी बारी है ॥१३॥

Hō dīnānātha anāthahitū, jana dīna-anātha pukārī hai ।  
Udayāgata-karmavipāka halāhala, mōha-vithā vistārī hai ॥  
Jyōm āpa aura bhavi-jīvana kī, tatkāla vithā niravārī hai ।  
Tyōm 'vṛndāvana' yaha arja karē, prabhu āja hamārī bārī hai ॥13॥

\* \* \* A \* \* \*